

'Start a business if you wa

In poll mode SP chief asks party cadres to stop land-grabbing

Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav on Friday asked some tough questions from the party cadres as to when they will stop land grabbing, minting money and overcome their other weak-

"If you are so fond of money, then politics is not your cup of tea, you should do some business where you can earn more money. Only those people can survive in politics who have the spirit to serve people as public life demands high levels of accountability", said Mulayam Singh Yadav.

Addressing a meeting of the party leaders and cadre on the occasion of 84th birth anniversary of socialist leader Janeshwar Mishra here on Wednesday, Mulayam Singh Yadav said "You are dreaming of being voted back to power in 2017 while continuing your old habits of land grabbing and several other illegal activities". On several occasions in last four years and recently in July, he had warned the cadres and leaders to refrain from indulging in illegal activities or they will be shown the door. "All of you are far more interested in sycophancy and keep making rounds of my house and other leaders. Instead of this, you better stop land grabbing and minting money and do the political work as you will get the party ticket only with my signature", said the SP chief adding "Party will have to focus special attention on the youth, farmers and women if you wish to be voted back to power in 2017."

Taking to task CM Akhilesh Yadav, he said "Party leaders, MLAs and Ministers are complacent about the next Assembly elections and there seems to be no sense of urgency for preparing for the next elections". He, however, added "even if all other parties join hand, SP will form the next Government in UP.

"Leaders of all other parties-the BJP, BSP and even the Congress-are working hard at the grass root level for the next Assembly polls as their cadres have fanned out to the remote areas and villages. Where do we stand as compared to the hard work being done by the other political parties? If you do not get your acts together than there is no hope for the SP in 2017 assembly elections", said Mulayam Singh Yadav in a terse message to his party leader.

18 -

Lucknd ping upf Assembe announe headqua has alif 'Samaj 1 month.e be anno ing mdi August

would H SPW the diste leadersg and de success complef and in e cial batn

the 18 re

Asb for the, Mulayan level wd efforts t to newS

ALCHEMIST REALTY LIMITED ALCHEMIST

Alchemist Realty Building No. 23, Nehru Place, New Delhi

LOST OF RECEIPT

Lost our original payment receipts of the Flats at Parsvnath Royale, Sector 20, Panchkula (Haryana). The details of the Flats are as under:- No. T1: 403, 404, 504, 901, 902, 903. T2: 103, 702, 802, T3: 404, 503, 504, 603, 604, 704, 902, 903. T4: 403, 602, 603, 704, 803. T5: 603. T6: 601, 803, 901, 903, G01. T7: 101, 601, 603, 703, 801, 901, 903. T8: 503, 701, 703, 801, 803, 901, 903. T9: 603, 701, 703, 803, 903. Anyone found the documents please call on: 011-40600800

ELDECO

ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Shop No 16, Second Floor, Eldeco Station 1, Site No 1, Sector 12, Faridabad, Haryana – 121 007, E-mail id: Eldeco@eldecohousing.co.in Website: www.eldecogroup.com, Ph. No.: 0522-4039999 CIN: L45202HR1985PLC044265

NOTICE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, September 2st, 2016 at 2:00 P.M. at Goldfinch Hotel, Suraj kund Road, Village Lakarpur, Sector-39, Faridabad, Haryana-121010, to transact the business as stated in the notice sent to the members individually.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2016 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant. The same are also available on the website of the Company at www.eldecogroup.com. Hard copies of Notice of AGM and Annual Report for 2016 have been sent to other members at their registered addresses.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date on Friday, 26th August, 2016, may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 27th August, 2016 to Friday, 02th September, 2016 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted

through voting by electronic means;

The period for e-voting starts at 9:00 AM on 30th August, 2016 and ends at 5:00 PM on 1st September, 2016;

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners Maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General meeting;

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as on cut-off date i.e. 26th August, 2016 can follow the process for generating login-id and password as provided in the Notice of the AGM, if their PAN is updated with their Depositors. Participants. However such members who have not updated their PAN with their Depository Participants, they may obtain their Login id and password by sending a request at naina@eldecohousing.co.in/ admin@skylinerta.com. If the member is already registered with CDSL for e-voting, then he can use his existing user-id/password for casting his vote through remote e-voting;

Members may note that a remote e-voting shall be disabled by CDSL after 1st September, 2016, 5:00 PM and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it

subsequently; The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right

at the meeting through polling paper; A member who have cast their vote through remote e-voting prior to AGM may attend the AGM but shall not be allowed to vote again in

In case of any queries related to Electronic Voting, members may download e-voting user manual at the downloads section at www.evotingindia.com or please contact with the Company's Registrar and Transfer Agent- M/s Skyline Financial Services Private Limited, Contact Person- Mr. Parveen Sharma and Numbers- 011-30857575, 26812682-83

By Order of Board For Eldeco Housing & Industries Limited Sd/-

Place: Lucknow Dated: 06.08.2016

Naina Tandon Company Secretary

Chargesheet filed against Chhota Rajan, Rattesar **DEY MURDER** CASE

TN RAGHUNATHA MUMBAI

en months after he was the CBI on Friday filed a charge-sheet against Rajendra Sadashiv Nikalje alias Ćhhota Rajan and his accomplice Ravi Ram Rattesar in the much-discussed J Dey murder case.

In a supplementary chargesheet filed in the J Dey murder case before a Special Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) court here, the CBI charged Chhota Rajan and Rattesar under 302 (murder), 34 (crime done in furtherance of common intention) 120-B (conspiracy), 201 (disappearance of evidence) of Indian Penal Code, sections 3, 25, 27 of Arms Act; 37 (1) (a), 135 of Bombay Police Act; Section 3 (1) (i), 3 (2), 3 (4) of MCOC Act 1999.

The CBI, which took over the I dev murder case from the Mumbai police in January this year following a request from

3 chained kids res madrasa in Benga

KESTUR VASUKI BENGALURU

Three kids who were chained inside a madrasa for not attending the class have been rescued in Bengaluru recently. Based on a secretly shot video which went viral on social media, Bengaluru police raided the madrasa in HSR Layout and rescued the siblings and sent them to juvenile home. The eldest among them is just 10 years on Friday. According to police sources, the kids had refused to attend the classes and with consent of the father the teacher chained them and kept them inside the madrasa.

According to MB Boralingaiah, deputy commissioner of police, southeast divi-sion confirmed the incident and said three kids (aged 10,

eight and seven) were res from a madrasa. He said teacher with the consent o father of the kids had cha them. "We have booked father, Siraj Wahab, a labon aged around 35, and the tead Mubarak Moulasaab, 30, uo various acts of IPC. But1have got the bail and areg However, we are going tocharge sheet and continue investigation," he added. P

According to Krupa le chairperson of the Karnie Commission State Protection of Child Right kids are in trauma. She saida is the first such incident it^{ft} madrasa in Karnataka. Shêconfirmed that there water sign of any physical abu the children.

The Social Demode

Manipur body urges Sharmila 🕵 reconsider decision to end fash

कारोबार

सोना (रुपए/१० ग्राम) ३१,१०० 🔺 ५०

चांदी (Rs/1 KGS) 47,200 🔺 250

27909 27784 27659

BSE- 28,078.35 **A** 363.98

8576

NSE- **8,683.15 132.05**

बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 363.98 अंक बढ़कर 28,078.35 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 132.05 अंक उछलकर 8.683.15 अंक पर बंद हुआ।

सार समाचार

रुपया चार पैसे मजबूत

मुंबई। भाषा। रुपया शुक्रवार को विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में चार पैसे की मजबूती के साथ 66.87 के स्तर पर पहुंच गया। ऐसा बैंकों और निर्यातकों की ओर से अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली बढ़ाने के मद्देनजर हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा विदेशी कोष के प्रवाह में मजबूती, अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डालर में नरमी और घरेलू इक्विटी बाजार में शुरुआती तेजी से रुपए को मदद मिली। रुपया गुरुवार के कारोबार में आठ पैसे की बढ़त के साथ 66.91 पर बंद हुआ था। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में 231.03 अंक या 0.83 फीसद चढ़कर 27,945.49 पर चल रहा था।

एयर कोस्टा की फ्लाईट सेवा शुरू

नई दिल्ली।भाषा। क्षेत्रीय विमान सेवा एयर कोस्टा ने शुक्रवार को आंशिक तौर पर अपनी फ्लाईट सेवा शुरू कर दी है। पट्टेपर विमान देने वालों के साथ गुरुवार को एक समस्या के चलते कंपनी ने ऑपरेशन रोक दिया था। कंपनी ने एक बयान में बताया कि एयर कोस्टा शुक्रवार को नौ विमानों का ऑपरेशन करेगी। विमान पट्टे पर देने वालों के साथ हुई समस्या को अब 'सुलझा' लिया गया है। कंपनी गुरुवार से अपनी सभी 24 नियमित उड़ानों का ऑपरेशन करेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चौधरी ने बताया कि उन्होंने एक दिन के लिए अपना परिचालन बंद किया था। शुक्रवार से कंपनी ने अपना पूरा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेवाओं की शुरुआत पर कंपनी ने शुक्रवार को पहली उड़ान हैदराबाद से तिरूपति के लिए शुरू की।

जीएसकेसीएच का मुनाफा बढ़ा

नई दिल्ली।भाषा। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड का मुनाफा जून 2016-17 को समाप्त तिमाही के दौरान शुक्रवार को 2.92 फीसद बढ़कर 160.61 करोड़ रुपए हो गया। जीएसकेसीएच ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 156.05 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की बिक्री 1.6 फीसद गिरकर 1,002.61 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,019.26 करोड़ रुपए थी।

जापानी कंपनी एम-३ भारत में

नई दिल्ली।भाषा। डाबर समूह के प्रवर्तक बर्मन परिवार से सर्मथन प्राप्त हेल्थकेयर एट होम और जापानी कंपनी एम–3 भारत में डॉक्टरों का एक ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक संयुक्त उपक्रम बनाएंगे। इसके लिए इन दोनों कंपनियों ने एक समझौता किया है। हालांकि, कंपनी ने इस साझेदारी की वित्तीय जानकारी साझा नहीं की है।

मुंबई 🔳 वार्ता/डेस्क

वस्तु एवं सेवां कर (जीएसटी) विधेयक पारित

होने से उत्साहित निवेशकों की चौतरफा लिवाली

की बदौलत शुक्रवार को शेयर बाजार डेढ़ फीसदी की तेजी पर रहा। यह तेजी विदेशी

बाजारों में आई तेजी के बीच स्थानीय स्तर पर

सूचकांक सेंसेक्स 11 जुलाई के बाद की एक

दिन की सबसे बड़ी 363.98 अंक यानी 1.31

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी

लिवाली से देखी गई।

चार फीसद महंगाई का लक्ष्य तय

वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2021 तक के लिए महंगाई दर चार फीसद रखने का लक्ष्य निर्धारित किया।


नई दिल्ली ■ वार्ता/डेस्क

सरकार ने शुक्रवार को खुदरा महंगाई का लक्ष्य 4 फीसद तय किया जो अगले पांच साल के

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक गजट अधिसूचना जारी किया। इसमें 31 मार्च 2021 तक के लिए महंगाई दर चार प्रतिशत रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसने बताया कि हर पांच साल में रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ सलाह-मशविरा कर सरकार यह महंगाई का नया लक्ष्य निर्धारित

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य चार फीसद होगा, लेकिन इसमें दो फीसद कम-ज्यादा की गुंजाइश होगी। ऐसे में अधिकतम सीमा छह फीसद और न्यूनतम सीमा दो फीसद की होगी। खुदरा महंगाई दर इस सीमा के भीतर रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की होगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और



आरबीआई के बीच पिछले साल हुए समझौते के तहत महंगाई दर लक्ष्य के भीतर रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक को दी गई थी। साथ ही इस साल 27 जून को आरबीआई कानून में बदलाव कर मौद्रिक नीति समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अभी पहली समिति का बनना बाकी है। समिति बनते ही नीतिगत ब्याज दरें तय करने का अधिकार उसके पास चला जाएगा। उसका प्रमुख काम महंगाई दर का लक्ष्य हासिल करना होगा।

विज्ञप्ति के मुताबिक, पूरे चार प्रतिशत की बाध्यता की बजाय दो प्रतिशत कम-ज्यादा की छूट देने से समिति अल्पावधि के उथल-पुथल की स्थिति से निपटने में कामयाब रहेगी। वह अल्पाविध में विकास और मुद्रास्फीति के बीच तालमेल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की बजाय लंबे दिनों में खुदरा महंगाई लक्ष्य हासिल करने पर फोकस कर सकेगी।

आरबीआई के केंद्र सरकार के बीच समझौते के प्रावधानों के मुताबिक यदि लगातार तीन तिमाही में महंगाई दो प्रतिशत से कम या छह प्रतिशत से ज्यादा रहती है तो माना जाएगा कि केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू करने में नाकाम रहा है।

उसे लिखित में अपनी नाकामी का कारण बताना होगा। साथ ही वह इसके लिए उठाए जा रहे सुधार के कदमों के बारे में बताएगा। उसे सरकार को यह भी बताना होगा महंगाई दर के कब तक वापस दो से छह प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है।

वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योगों से मदद मांगी

नई दिल्ली। भाषा। वाणिज्य मंत्रालय ने देश में कारोबार आसानी बढ़ाने के लिए उद्योग संगठनों समेत सभी जुड़े पक्षों से उनके सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है।

डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने इस दिशा में कई पहलें की हैं लेकिन कारोबार आसानी बढ़ाने के लिए उद्योग से इस बारे में लगातार प्रतिक्रिया की

अभिषेक ने फिक्की के कारोबार आसानी पर आयोजित एक समारोह में कहा कि हमें उद्योग के साथ लगातार जुड़े रहने और प्रतिक्रिया हासिल करने की जरूरत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस विशाल अभियान में सरकार के साथ भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में केंद्र और राज्य सरकार ने उन सभी 10 मानकों पर काम किया है जिन पर विश्वर बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक आधारित है। इन 10 मानकों में कारोबार शुरू करना, निर्माण मंजूरी, बिजली कनेक्शन हासिल करना और सीमा पार व्यापार आदि शामिल है।

एयरटेल का अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान

नई दिल्ली 🔳 एजेंसियां/डेस्क

टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपने पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग प्लान लेकर आई है। इसमें 3जी-4जी डेटा सुविधा भी उपलब्ध होगी। नए पैक की कीमत 1,199 रुपए रखी गई है। मोबाइल बाजार में दिनोंदिन बढ़ती होड़ को देखते हुए एयरटेल की इस पेशकश को अहम माना जा रहा है।

कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि ये प्लान 'माय प्लान इनिफनिटी' सीरिज के तहत पेश किए गए हैं। इनमें दो प्लान नए उपभोक्ताओं के लिए हैं। 1,199 रुपए के पहले प्लान में नए उपभोक्ताओं को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ 100 एसएमएस रोज, एक जीबी 3जी/4जी डाटा और विंक म्यूजिक और विंक मूवीज का निःशुल्क सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है।

1,599 रुपए वाले प्लान के तहत

स्विट्जरलैंड की वित्तीय सेवा

2016-17 में वास्तविक सकल

घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि

नई दिल्ली ■ भाषा/डेस्क

रिजर्व बैंक 9 अगस्त की मौद्रिम समीक्षा में

ब्याज दरों में शायद ही कोई बदलाव करे।

यबीएस ने किसी भी बदलाव की संभावना से

इनकार किया है। इसकी रिपोर्ट में भारतीय

अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का चालू वित्त वर्ष में

कंपनी के मुताबिक 2016-17 में वास्तविक

सकल घरेलूँ उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर

करीब 7.4 फौसद रहेगी। 2015-16 में यह 7.6

दुरस्त करने के अवस्फीतिक प्रभाव से

निराशाजनक आर्थिक गतिविधियां अधिक

टिकाउ मार्ग की ओर बढ़ रही हैं, वहीं बाहरी

दबाव से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अधिक

अच्छी बात यह है कि मजबूत बही खाते से

साढ़े तीन सप्ताह बाद उछला बाजार

स्विट्जरलैंड की वित्तीय सेवा क्षेत्र की

रिपोर्ट में कहा गया है कि बही खाते को

7.4 फीसद रहने की बात कही गई है।

फीसद रही थी।

दर करीब 7.4 फीसद रहेगी।

क्षेत्र की कंपनी के मुताबिक

रिजर्व बैंक नहीं बदलेगा

ब्याज दर



अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ 100 एसएमएस रोज, पांच जीबी 3जी/4जी डाटा और विंक म्यूजिक एवं विंक मूवीज का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। पुराने उपभोक्ताओं के लिए भी अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग वाले दो प्लान पेश किए गए हैं। 1,999 रुपए और 2,999 रुपए के प्लान पर क्रमशः 10 जीबी एवं 20 जीबी 3जी/4जी डाटा के साथ 100 एसएमएस रोज और विंक म्यूजिक व विंक

2017-18 में वृद्धि में सुधार होगा।

नीतिगत मोर्चे पर रिपोर्ट में कहा गया है

कि रिजर्व बैंक को मई और जून के उपभोक्ता

मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई के आंकड़ों

को देखना होगा और सातवें वेतन आयोग के

आंशिक क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा।

इसी के अनुरूप यूबीएस का अनुमान है कि

रिजर्व बैंक अगस्त की मौद्रिक समीक्षा में

होनी है। यूबीएस का अनुमान है कि 2017-18

के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 फीसद

किया जाएगा, जबकि पहले इसके 4.2 फीसद

मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 9 अगस्त को

मुद्रास्फीति के लक्ष्य को उंचा करेगा।

रहने का अनुमान लगाया गया था।

मुवीज का निःशुल्क सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा हैं। भारत और दक्षिण एशिया में कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर अजय पुरी ने कहा कि मायप्लान इनिफनिटी के तहत हम उपभोक्ताओं को अपनी डाटा जरूरतों के हिसाब से अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के प्लान उपलब्ध करा रहे हैं। इन नए प्लान के साथ हमने सेवाओं को और किफायती बना दिया है। इससे अधिक वॉयस यूजेज वाले उपभोक्ताओं को निश्चित

दूसरी ओर, रिलायंस जियो अगले एक महीने में अपनी 4जी सेवाएं शुरू करने जा रही है। इसे देखते हुए पहले से मोबाइल सेवा क्षेत्र में कार्यरत भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइंडिया ने डाटा सेवाओं के क्षेत्र में नए मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस जियो ने 4जी एलवाईएफ हैंडसेट का दाम 25 फीसद घटाकर 2,999 रुपए कर दिया है।

बोइंग ने भारतीय एमएसएमई को बनाया आपूर्तिकर्ता

बेंगलुरु। वार्ता। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने 787 ड्रीमलाइनर और 737 विमानों के टाइटेनियम से बने जटिल कलपुजौं और एल्युमीनियम असेंबली के लिए भारतीय कंपनी सीआईएम टल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। विमानन, अंतरिक्ष तकनीक, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की एमएसएमई कंपनी सीआईएम ट्रल्स ने एक बयान में बतया कि वह इन दोनों विमानों के लिए 57 हजार से ज्यादा टाइटेनियम के पुर्जे बनाएगी। साथ ही आने वाले वर्षों में वह 787 और 737 विमानों के एल्यूमीनियम के हिस्से बनाने और

असेंबली का काम भी करेगी। Date: 05.08.2016

MFL INDIA LIMITED

CIN No.: L63040DL1981PLC012730 Phone: 011-32676756, Email: mfldelhi81@gmail.com, Website: www.mflindia.in

aturday, 13th day of August, 2016 at 3.00 P.M. at the Registered Office of the Company at 94/4, 3^dFloor, KH.No. 490/106, Village-Patparganj,Delhi –110 091 to consider and approve To take into consideration and approve the Unaudited Financial Results for the 1st Quarter

To consider and approve the appointment of Mrs. Sheetal Thukral, (DIN 01168506) as additional Director of the Company.

To consider and approve any other matter as may be decided by the Board.Further, the Company's Code of Conduct for prohibition of insider trading, pursuant to the Securities & Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015, the Trading window for dealing in securities of the Company will be closed for the purpose of declaration

Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2016 for all the officers and Designated Employees (including Directors) of the Company from August 6, 2016 to till August 15, 2016 i.e. 48 (Forty Eight) hours after the announcement of the Financial Results o e Company i.e. on August 15, 2016 to the Stock Exchange/s (both days inclusive) For MFL INDIA LIMITED

Date: 05.08.2016 Place : New Delhi

कॉल ड्रॉप पर 10 मिनट देगी वोडाफोन

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने शुक्रवार को एक नई पहल पेश की। अब उसके नेटवर्क पर किसी भी कारण से कॉल बीच में कट गई तो कंपनी 10 मिनट का टॉकटाइम देगी।

वोडाफोन इंडिया ने बयान में कहा, 'वोडाफोन डिलाइट बोनांजा के तहत उन सभी ग्राहकों को दस मिनट का मुफ्त टॉकटाइम दिया जाएगा जिनकी बातचीत में किसी तरह की रुकावट आई है।' इस पेशकश का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को 199 नंबर पर 'बेटर' लिखकर एसएमएस करना होगा और दस मिनट का टॉकटाइम डाल दिया जाएगा। प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए दिया गया अतिरिक्त टॉकटाइम अगले दिन बीच रात तक मान्य होगा जबकि पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए यह जारी बिलिंग साइकिल के लिए मान्य होगा।

यह सुविधा सिर्फ वोडाफोन वोडाफोन नेटवर्क के लोकल कॉलों के दौरान कॉल ड्रॉप होने की स्थिति में मिलेगी। इसका फायदा सिर्फ इस

अगस्त में और एक बार ही लिया जा सकेगा। **CALCOM VISION LIMITED**

Regd. Office: C-41, Defence Colony, New Delhi-110024 Website: www.calcomindia.com mail: corp.compliance@calcomindia.co CIN: L9211DL1985PLC021095

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Pursuant to Regulation 25 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is brookly view that the meeting of the Read of nereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on nded 30th June, 2016.

Further for the abovementioned purpose the Further for the aboverhelmonoe purpose for Trading Window for dealing in Securities of the Company, would be closed from August 5, 2016 to August 16, 2016 (both days inclusive), pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015.

(S. K. Malik) nan & Managing Director DIN: 00085715

Read. Off.: 94/4, 3rd Floor, KH.No.490/106, Village-Patpargani, Delhi –110 091

Board Meeting Notice Notice is hereby given the meeting of the Board of Directors of the Company will be held or

ended on June 30, 2016 pursuant to Regulation 29 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

ap Singh)
Place: Lucknow
Dated: 06.08.2016 (Arimardan Pratap Singh)

@ELDECO

ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: Shop No 16, Second Floor, Eldeco Station 1, Site No 1, Sector 12, Faridabad, Haryana – 121 007, E-mail id: Eldeco@eldecohousing.co.in Website: www.eldecogroup.com, Ph. No.: 0522-4039999 CIN: L45202HR1985PLC044265

NOTICE Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, September 2nd, 2016 at 2:00 P.M. at Goldfinch Hotel, Suraj kund Road,

Village Lakarpur, Sector-39, Faridabad, Haryana-121010, to transact the business as stated in the notice sent to the members individually Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2016 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant. The same are also available on the

website of the Company at www.eldecogroup.com. Hard copies of Notice of AGM and Annual Report for 2016 have been sent to other members at their registered addresses. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date on Friday, 26th August, 2016, may cast their vote

electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All members are informed that:

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 27th August, 2016 to Friday, 02th September, 2016 (both days inclusive), for the purpose of AGM. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted

through voting by electronic means; The period for e-voting starts at 9:00 AM on 30th August, 2016 and ends at 5:00 PM on 1st September, 2016;

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners Maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote

e-voting as well as voting in the Annual General meeting; Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as on cut-off date i.e. 26th August, 2016 can follow the process for generating login-id and password as provided in the Notice of the AGM, if their PAN is updated with their Depository Participants. However such members who have not updated their PAN with their Depository Participants, they may obtain their Login id and password by sending a request at naina@eldecohousing.co.in/ admin@skylinerta.com. If the member is already registered with

casting his vote through remote e-voting; Members may note that a remote e-voting shall be disabled by CDSL after 1st September, 2016, 5:00 PM and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change i subsequently;

CDSL for e-voting, then he can use his existing user-id/password for

The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their righ at the meeting through polling paper;

A member who have cast their vote through remote e- voting prior to AGM may attend the AGM but shall not be allowed to vote again in

In case of any queries related to Electronic Voting, members may download e-voting user manual at the downloads section at www.evotingindia.com or please contact with the Company's Registrar and Transfer Agent- M/s Skyline Financial Services Private Limited, Contact Person- Mr. Parveen Sharma and Numbers- 011-30857575, 26812682-83.

By Order of Board For Eldeco Housing & Industries Limited Naina Tandon

मध्यप्रदेश शासन, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर (म.प्र.)

E-mail: eepwdnhsagar@mp.nic.in, Ph. No./ Fax No. 07582&222206 नि.सू. क्रमांक 05/एस.ए.सी/2016-17/ सागर

दिनांक 30.07.2016

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि. रा.रा. संभाग सागर

निविदा सूचना (तृतीय आमंत्रण)

1. निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन ओपन निविदाएं (ई- टेण्डरिंग) के माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली के ई. प्रोक्योरेमेंट पोर्टल Standard Bidding Document (S.B.D.) पर निविदा प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा के विस्तृत विवरण पोर्टल http://morth.eproc.in पर देखे जा सकते हैं।

ŀ									
- 1	स.	निविदा	इ	कार्य का नाम	कार्य की	बिंड डाक्यूमेट	बिड सिक्यूरिटी	1. कार्यावधि	ठेकेदार
	क्रं	क्रमांक एवं	टेण्डर		अनुमानित लागत	की कीमत	की राशि	2. आमंत्रण	की श्रेणी
		दिनांक	क्रमांक		(रू. लाख में)	(रू. में)	(लाख में)	क्रमांक	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ſ	1	05/एस.	2774	रा.रा. क्रं. 86 सागर- छतरपुर	3445.98 लाख	50000/-	50.00 लाख	1-24 माह	अ श्रेणी
		ए.सी./ 16-	5	मार्ग के किमी 3/8 से 87 के				वर्षाकाल	
		17		बीच 29 नग सकरी एवं				सहित 2-	
		दि.08.06.16		क्षतिग्रस्त पुलियों तथा माईनर				तृतीय अमंत्रण	
				ब्रिज का पुननिर्माण कार्य।					

1. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि दिनांक 16.08.2016 समय 17:30 बजे तक भारतीय समयानुसार। 2. ऑनलाइन बिंड अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.08.2016 समय 17: 30 बजे तक भारतीय समयानुसार।

जी-16867/16

शराब पी कर गाड़ी न चलाएं। कुछ नुकसानों की भरपाई कभी नहीं हो सकती।



फीसद की छलांग लगाकर 28 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार 28,078.35 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 132.05 अंक यानी 1.54 फीसद की उछलकर 8,600 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर 8,683.15 अंक पर बंद हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साल 2009 के बाद पहली बार ब्याज दर में उम्मीद से अधिक 0.25 फीसद की कटौती से विदेशी बाजारों की तेजी का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी देखा गया। इसके अलावा आजादी के बाद देश के सबसे बड़े सुधार कर सुधार जीएसटी के राज्यसभा में पारित होने से भी निवेशधारणा मजबूत हुई है। हालांकि, जीएसटी दर को लेकर निवेशक अभी भी सतर्क बने हुए हैं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 96.18 अंक अंक के उच्चतम स्तर को छुआ। अंत में पिछले दिन के 8,551.10 अंक की तुलना में 132.05 अंक की छलांग लगाकर 8,683.15 अंक पर रहा। बड़ी कंपनियों के मुकाबले बीएसई की छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली की रफ्तार अधिक तेज रही। मिडकैप 1.69 फीसद चढ़कर 12,698.44 अंक और स्मॉलकैप 1.47 फीसद ऊपर 12,306.59 अंक पर बंद हुआ। आईटी, टेक और दूरसंचार समूह की 0.18 फीसद तक की गिरावट को छोड़कर बीएसई के बाकी 17 समूहों में तेजी दर्ज की गई।

ऑटो समृह में सबसे अधिक 3.14 फीसद वहीं, जापान के निक्की में स्थिरता रही।



की तेजी के साथ 27,810.55 अंक पर खुला। लेकिन, कुछ देर बाद 27,795.74 अंक के न्यूनतम स्तर पर आ गया। इसके बाद हुई लिवाली के बल पर यह लगातार बढ़ता हुआ अंतिम कारोबारी घंटे में 28,110.37 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में पिछले दिन के 27,714.37 अंक के मुकाबले 363.98 अंक उछलकर 28,078.35 अंक पर रहा। निफ्टी की शुरुआत भी मजबूत रही और यह 49.1 अंक की बढ़त के साथ 8,600.20 अंक पर खुला। हालांकि, थोड़ी देर बाद यह 8,590.15 अंक के निचले स्तर पर आ गया। निवेशधारणा मजबूत रहने से यह आखिरी कारोबारी घंटे में 8,689.40

की बढ़त रही। इसके अलावा पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वित्त, रियल्टी, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, ऊर्जा, बेसिक मटिरियल्स, पीएसयू, पूंजीगत वस्तुएं, धातु और तेल एवं गैस समूह के शेयर भी 2.74 फीसद तक मजबूत रहे। बीएसई में कुल 2,906 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 1,841 में तेजी और 894 में मंदी रही जबिक 171 के भाव अपरिवर्तित रहे। विदेशी बाजारों में तेजी का रुख रहा। ब्रिटेन का एफटीएसई शुरुआती कारोबार में 0.20, हांगकांग का हैंगसेंग 1.44 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.90 फीसद चढ़ा जबकि चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.18 फीसद की मंदी रही।